



प्रेस नोटथाना मंडी धनौरा दिनांक 27.06.2021

फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर डालकर टरबो कैंटर से तस्करी को ले जायी जा रही 150 पेट्टी

गैर प्रांतीय शराब(कीमत करीब 11 लाख रूपये) सहित शराब तस्कर गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन, बरेली द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम मे श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद के निर्देशन मे श्रीमतीपूनम पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा द्वारा पुलिस टीम गठित कर अवैध शराब माफियाओं/अवैध शराब के विरुद्ध कडी कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम मे चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा गैर प्रांतीय शराब की तस्करी करने वाली महिला अभियुक्ता उसके पति को 150 पेट्टी अवैध शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का सहित गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि आज प्रातः करीब 05.30 बजे थाना मंडी धनौरा पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ देर में चादपुर की तरफ से एक टरबो कैंटर गाडी आ रही है और उसमे शराब भरी है, इस सूचना पर थाना मंडी धनौरा पुलिस चुचैला नहर पुल पर बैरियर लगाकर चैकिंग करने लगे कि कुछ देर मे एक टरबो कैंटर गाडी आती दिखाई दी जिसमे आगे 01 महिला व 02 पुरुष बैठे थे जोकि पुलिस टीम को देखकर गाडी को बैक गेर् में डालकर भागने का प्रयास करने लगे परन्तु पीछे दूसरी गाडी आ जाने के कारण गाडी रुक गई और गाडी में बैठे दोनो व्यक्ति गाडी से उतरकर आम के बाग से होते हुए फरार हो गये। गाडी में बैठी महिला अभियुक्ता को महिला पुलिस आरक्षी द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसने पूछताछ पर अपना नाम सुधा पत्नी समरपाल निवासी ग्राम मुस्सलेपुर थाना बछरायूं अमरोहा बताया। टरबो कैंटर गाडी की तलाशी लेने पर पिछले भाग से काले रंग की पन्नी से ढकी हुई 100 पेट्टी KINGS GOLD SPECIAL WHISKY कुल(1200 बोतल) व 30 पेट्टी SUPER SPEED WHISKY (कुल 1440 पच्चे) अरुणाचल प्रदेश मार्का बरामद हुई। पुलिस को धोखा देने के उद्देश्य से टरबो कैंटर गाडी पर रजि0न0 UP23 AE 8860 की फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई थी जिसका सही रजि0 न0 UK04 CB 1382 है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मंडी धनौरा पर मु0अ0सं0 240/2021 धारा 420 भादवि 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। पूछताछ पर महिला ने बताया कि फरार हुये दोनो व्यक्तियों मे एक मेरे पति समरपाल पुत्र लेखराज हैं व ड्राईवर को मैं नहीं जानती। पुलिस टीम द्वारा फरार अभियुक्तों की तलाश की गई, इसी दौरान पुलिस टीम द्वारा सूचना पर दोपहर करीब 12.00 बजे महिला के पति समरपाल उपरोक्त को चुचैला कलां से डींगरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर बने एक खण्डहर से 20 पेट्टी गैर प्रांतीय अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया जिसके 02 अन्य साथी 1. रवि सैनी पुत्र बल्ले व 2. जावेद उर्फ चीनू पुत्र बाबू निवासीगण ग्राम हैबतपुर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा फरारा हो गये। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना मंडी धनौरा पर मु0अ0सं0 242/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।



पुछताछ विवरण:-

पुछताछ पर अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि मैं और मेरे पति गैर प्रांतीय शराब लाकर चोरी छिपे अपने घर से बेच देते हैं जिससे अच्छी कमाई हो जाती है। गाडी पर हम फर्जी नम्बर प्लेट लगा लेते थे और मैं आगे बैठ जाती थी, मेरे आगे बैठने से रास्ते में पुलिस भी महिला को देखकर गाडी चैक नहीं करती थी जिससे हम आसानी से गैर प्रान्त की शराब तस्करी कर लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्ता:-

1. सुधा पत्नी समरपाल निवासी ग्राम मुस्सलेपुर थाना बछरायूं जनपद अमरोहा।
2. समरपाल पुत्र लेखराज निवासी ग्राम मुस्सलेपुर थाना बछरायूं जनपद अमरोहा।

बरामदगी:-

1. 120 पेट्टी KINGS GOLD SPECIAL WHISKY कुल(1200 बोतल)।
2. 30 पेट्टी SUPER SPEED WHISKY (कुल 1440 पक्के)
3. तस्करी मे संलिप्त रबो कैंटर रजि0न0 UP23 AE 8860 (नम्बर प्लेट बदली हुयी)।

कीमत करीब 11 लाख रुपये

फरार अभियुक्तगण:-

1. रवि सैनी पुत्र बल्ले निवासी ग्राम हैबतपुर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।
2. जावेद उर्फ चीनू पुत्र बाबू निवासी ग्राम हैबतपुर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त समरपाल:-

1. मु0अ0सं0 240/2021 धारा 420 भादवि 60/63 आबकारी अधि0थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।
2. मु0अ0सं0 242/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।
3. मु0अ0सं0 206/2016 धारा 420 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना बछरायूं जनपद अमरोहा।
4. मु0अ0सं0 353/2017 धारा 420 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना बछरायूं जनपद अमरोहा।
5. मु0अ0सं0 73/2021 धारा 420 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना बछरायूं जनपद अमरोहा।
6. मु0अ0सं0 155/2021 धारा 272/420/467/468/471 भादवि व 63 आबकारी अधि0 थाना चांदपुर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री शौकेन्द्र सिंह थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।
2. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।
3. उ0नि0 श्री रामनिवास शर्मा थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।
4. का058 सुनील कुमार थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।
5. का0 1207 मोन्टी वर्मा थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।
6. म0का01158 राजवती थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।
7. म0का0 1170 सोनम थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।